



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 चैत्र 1946 (श10)  
(सं0 पटना 379) पटना, बुधवार, 10 अप्रील 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

19 मार्च 2024

सं0 1स्था0-33/2024-888/वि0स0—बिहार विधान सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-927, दिनांक 13.03.2024 द्वारा संविदा के आधार पर निदेशक एवं अन्य पदों पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति की दिनांक 15.03.2024 की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-10000, दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान के तहत की गयी अनुशंसा के आलोक में दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक श्री पवन कुमार सिन्हा को निम्नलिखित शर्तों के साथ दिनांक 01.04.2024 से अगले एक वर्ष यानि 31.03.2025 तक संविदा आधारित नियोजन किया जाता है :-

- (क) यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी । प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा ।
- (ख) संकल्प की कंडिका-3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी ।
- (ग) संकल्प की कंडिका-3(5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
- (घ) संकल्प की कंडिका-3(6)(i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा । कंडिका-3(6)(ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा । कंडिका-3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा ।

मानदेय का भुगतान सभा सचिवालय के मुख्य बजट शीर्ष के विपत्र कोड के अंतर्गत संविदा सेवायें के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबधित राशि से किया जायेगा ।

- (च) संकल्प की कंडिका-(4) के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी ।
- (छ) संकल्प की कंडिका-(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा ।
- (ज) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहित कोई वित्तीय दायित्व नहीं सौंपा जायेगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से  
संजय कुमार,  
अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 379-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>